



विशेष रिपोर्ट

एनर्जी

(अप्रैल 2024)




मार्च-2024 में एनर्जी की कीमतों में बदलाव



स्रोत: रायटर्स एवं एसएमसी रिसर्च

जनवरी-मार्च 2024 में एनर्जी की कीमतों में बदलाव



स्रोत: रायटर्स एवं एसएमसी रिसर्च

मार्च के महीने में, आपूर्ति में कमी की आशंका और गर्मियों में अमेरिकी ब्याज दर में कटौती की बढ़ती संभावना के कारण कच्चे तेल की कीमतों में लगातार तीसरे महीने बढ़त दर्ज की गई क्योंकि भू-राजनीतिक तनाव के कॉकटेल ने वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की आपूर्ति को लेकर जोखिम को बढ़ा दिया। मध्य पूर्व में भू-राजनीतिक तनाव, लाल सागर में शिपिंग पर हौथी हमलों के कारण मार्च तिमाही में तेल की कीमतों में 15% से अधिक की वृद्धि हुई है। कीमतों में मुख्य रूप से बाजारों के लिए सप्लाय कम होने की आशंका से भी वृद्धि हुई, क्योंकि रूस, सऊदी अरब और पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन के अन्य सदस्यों ने उत्पादन पर अंकुश लगाना जारी रखा। मार्च की शुरुआत में रूस ने कहा था कि वह अपने उत्पादन में जारी कटौती को बढ़ाएगा, जबकि रूसी ईंधन रिफाइनरियों पर यूक्रेन द्वारा हमलों के बाद देश में ईंधन की आपूर्ति भी कम हो गई है। इजराइल-हमास युद्ध में तनाव कम होने के कुछ संकेत, जिसने तेल समृद्ध मध्य पूर्व क्षेत्र में भू-राजनीतिक तनाव बढ़ा दिया है, ने तेल की कीमतों को कम कर दिया है।

आउटलुक

- तेल बाजार की वर्तमान स्थिति भू-राजनीतिक कारकों, प्रमुख उत्पादकों द्वारा उत्पादन निर्णयों और व्यापक आर्थिक नीतियों की परस्पर जटिल क्रिया को दर्शाती है। जैसे-जैसे ये तत्व विकसित होते रहेंगे, तेल वायदा की कीमतों में उतार-चढ़ाव बने रहने की उम्मीद है।
- एक आधिकारिक फैंक्ट्री सर्वेक्षण से पता चला कि मार्च में चीन की मैनुफैक्चरिंग गतिविधि में छह महीने में पहली बार विस्तार हुआ, जिससे दुनिया के सबसे बड़े कच्चे आयातक में तेल की मांग में बढ़ोतरी की संभावना बढ़ी, जबकि संपत्ति क्षेत्र में संकट के कारण अर्थव्यवस्था और विश्वास पर दबाव बना हुआ है।
- रॉयटर्स ने सूत्रों के अनुसार रूस ने कंपनियों को ओपेक+ के उत्पादन कोटा को पूरा करने के लिए उत्पादन में कटौती करने का आदेश दिया है। यह खबर रूस

में रिफाइनरियों पर चल रहे यूक्रेनी हमलों के बीच आई है, जिससे ईंधन बाजारों पर दबाव बढ़ गया है, और कच्चे तेल के उपलब्ध कार्गो की मांग बढ़ गई है।

- रूसी कच्चे तेल प्रसंस्करण क्षमता का लगभग 1 मिलियन बैरल प्रति दिन हमलों के कारण बंद है, जिससे इसके उच्च-सल्फर वाले ईंधन तेल निर्यात पर असर पड़ता है जो चीनी और भारतीय रिफाइनरियों में संसाधित होते हैं।
- सऊदी अरब और रूस के नेतृत्व में ओपेक+ के सदस्यों ने वैश्विक विकास और समूह के बाहर बढ़ते उत्पादन पर चिंताओं के बीच बाजार को अतिरिक्त समर्थन देते हुए, दूसरी तिमाही में प्रति दिन 2.2 मिलियन बैरल की स्वैच्छिक तेल उत्पादन कटौती को जारी रखने पर सहमति व्यक्त की।
- रूस, जो ओपेक सहयोगियों का नेतृत्व करता है जिसे सामूहिक रूप से ओपेक+ के रूप में जाना जाता है, दूसरी तिमाही में तेल उत्पादन और निर्यात में अतिरिक्त 471,000 बैरल/दिन की कटौती करेगा। रूसी उप प्रधान मंत्री अलेक्जेंडर नोवाक ने नए आंकड़े दिए जिससे पता चलता है कि उत्पादन में कटौती उत्पादन के अनुपात में की जाएगी।
- दूसरी तिमाही में, इराक अपने 220,000 बैरल/दिन उत्पादन में कटौती को बढ़ाएगा, यूएई अपने 163,000 बैरल/दिन उत्पादन कटौती को बरकरार रखेगा और कुवैत अपने 135,000 बैरल/दिन उत्पादन कटौती को बनाए रखेगा। अल्जीरिया ने यह भी कहा कि वह 51,000 बैरल/दिन और ओमान 42,000 बैरल/दिन की कटौती करेगा।
- इजराइल-हमास संघर्ष में तनाव कम होने से मध्य पूर्व में भू-राजनीतिक अस्थिरता, संभावित रूप से क्षेत्र से कच्चे तेल की आपूर्ति को बाधित कर सकती है, पर चिंताएं कम होने की उम्मीद है। यह सेंटिमेंट तेल की कीमतों के लिए प्रमुख समर्थन बनी रह सकता है।
- ओपेक को एशिया के नेतृत्व में एक और वर्ष में 2.25 मिलियन बैरल/दिन की अपेक्षाकृत अधिक मांग की वृद्धि की उम्मीद है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी को 1.22 मिलियन बैरल/दिन की बहुत धीमी वृद्धि की उम्मीद है।
- आईईए को यह भी उम्मीद है कि इस साल तेल की आपूर्ति बढ़कर लगभग 103.8 मिलियन बैरल/दिन की रिकॉर्ड ऊंचाई तक पहुंच जाएगी, जो लगभग पूरी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील और गुयाना सहित ओपेक + के बाहर के उत्पादकों द्वारा संचालित है।

एमसीएक्स में कच्चे तेल की कीमतों में साप्ताहिक बदलाव



स्रोत: रॉयटर्स

नाइमेक्स में कच्चे तेल की कीमतों में साप्ताहिक बदलाव



स्रोत: रॉयटर्स

अप्रैल 2024 में, कच्चे तेल की कीमतें तेजी के रूझान के साथ 6350-7300 के बड़े दायरे में कारोबार कर सकती हैं, जहां निकट सपोर्ट स्तर पर खरीदना बेहतर रणनीति होगी। लेकिन उच्च स्तर पर मुनाफा वसूली से इंकार नहीं किया जा सकता है।

नेचुरल गैस

मार्च में, अपेक्षा से अधिक गर्म मौसम के कारण मांग में कमी के पूर्वानुमान से नेचुरल गैस की कीमतों में लगातार चौथे महीने गिरावट दर्ज की गई और नाइमेक्स और एमसीएक्स दोनों पर लगभग 6% से अधिक की गिरावट हुई, अपेक्षा से अधिक गर्म मौसम के कारण हीटिंग ईंधन की मांग में उल्लेखनीय कमी हुई। 30% से अधिक गिरावट के साथ यह लगातार तीसरी तिमाही गिरावट है। यह लगातार गिरावट केवल एक अल्पकालिक उतार-चढ़ाव नहीं है, बल्कि भविष्य में आपूर्ति और मांग के रुझान के बारे में बाजार की गहरी चिंताओं का स्पष्ट संकेत है। टेक्सास में फ्रीपोर्ट एलएनजी के निर्यात संयंत्र में चल रहे काम के कारण तरलीकृत नेचुरल गैस (एलएनजी) निर्यात संयंत्रों में कम मात्रा में गैस प्रवाहित होने से भी कीमतों पर असर पड़ा। रिकॉर्ड उत्पादन के साथ हल्की सर्दी के कारण 26 मार्च को, गैस की कीमतें गिरकर 1.481 डॉलर प्रति एमएमबीटीयू हो गईं, जो जून 2020 के बाद से सबसे कम है, जिससे संस्थाओं को वर्ष के इस समय में गैस भंडारण में सामान्य से काफी अधिक बढ़ोतरी हुई। विश्लेषकों का अनुमान है कि मौजूदा गैस भंडार सामान्य स्तर से लगभग 41% अधिक है।

आउटलुक

- नेचुरल गैस बाजार में अस्थिरता बनी रह सकती है क्योंकि यह मौसम की स्थिति से प्रभावित रहेगा। हल्के मौसम के पूर्वानुमान, पर्याप्त भंडारण स्तर और उत्पादकों के सतर्क रुख का संयोजन कीमतों पर निरंतर गिरावट के दबाव की ओर इशारा करता है।
- वित्तीय फर्म एलएसईजी ने कहा कि निचले 48 अमेरिकी राज्यों में गैस उत्पादन मार्च में अब तक औसतन 100.2 बिलियन क्यूबिक फीट प्रति दिन (बीसीएफडी) तक कम हो गया है, जो फरवरी के 104.1 बीसीएफडी से कम है। इसकी तुलना में दिसंबर 2023 में 105.5 बीसीएफडी का मासिक रिकॉर्ड उत्पादन हुआ था।
- अमेरिकी ऊर्जा सूचना प्रशासन के नवीनतम दृष्टिकोण के अनुसार, कम कीमतों से 2024 में अमेरिकी गैस के उपयोग को रिकॉर्ड ऊंचाई पर ले जाना चाहिए और 2020 के बाद पहली बार उत्पादन में कटौती करनी चाहिए, जब कोविड-19 महामारी ने ईंधन की मांग को नष्ट कर दिया था।
- पिछले महीने में उत्पादन पहले से ही लगभग 3% कम हो गया था क्योंकि ईक्यूटी और चेसापीक एनर्जी समेत कई ऊर्जा कंपनियों ने कुएं के पूरा होने में देरी की और अन्य ड्रिलिंग गतिविधियों में कटौती की।
- यूरोप की बढ़ती मांग और सीमित अल्पकालिक नई आपूर्ति क्षमताएं अस्थायी रूप से कीमतों पर अंकुश लगा सकती हैं और बाजार में अस्थिरता बढ़ा सकती हैं।
- नेचुरल गैस बाजार एलएनजी निर्यात क्षेत्र में चुनौतियों से भी जूझ रहा है। टेक्सास में फ्रीपोर्ट एलएनजी सुविधा में चल रहे मरम्मत के कारण एलएनजी निर्यात संयंत्रों में प्रवाहित होने वाली गैस की मात्रा में उल्लेखनीय रूप से कमी हुई है। इससे अमेरिकी नेचुरल गैस की बाहरी मांग में गिरावट हुई है, जिससे घरेलू स्तर पर अत्यधिक आपूर्ति की स्थिति बिगड़ गई है।

एमसीएक्स में नेचुरल गैस की कीमतों में साप्ताहिक बदलाव



स्रोत: रॉयटर्स

नाइमेक्स में नेचुरल गैस की कीमतों में साप्ताहिक बदलाव



स्रोत: रॉयटर्स

अप्रैल 2024 में एमसीएक्स पर नेचुरल गैस की कीमतें दोनों दिशाओं में कारोबार कर सकती है, जहां कीमतों को 128 पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस 166 के करीब देखा जा रहा है।

प्रतिभूति

आप इस रिपोर्ट को हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं- www.smctradeonline.com



Corporate Office:
11/6B, Shanti Chamber,
Pusa Road, New Delhi - 110005
Tel: +91-11-30111000
www.smcindiaonline.com

Mumbai Office:
Lotus Corporate Park, A Wing 401 / 402, 4th Floor,
Graham Firth Steel Compound, Off Western
Express Highway, Jay Coach Signal, Goreagon
(East) Mumbai - 400063
Tel: 91-22-67341600, Fax: 91-22-67341697

Kolkata Office:
18, Rabindra Sarani, Poddar Court, Gate No-4,
5th Floor, Kolkata-700001
Tel.: 033 6612 7000/033 4058 7000
Fax: 033 6612 7004/033 4058 7004

प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ लें। सेबी द्वारा दिया गया पंजीकरण और एनआईएसएम से प्रमाणन किसी भी तरह से मध्यस्थ के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देता है या निवेशकों को रिटर्न का कोई आश्वासन नहीं देता है। उद्धृत प्रतिभूतियां केवल उदाहरण के लिए हैं और अनुसंधान नहीं हैं। एसएमसी सेबी द्वारा पंजीकृत एक अनुसंधान विश्लेषक है जिसका पंजीकरण संख्या आईएनएच 100001849 है। सीआईएन: L74899DL1994PLC063609 है।

एसएमसी ग्लोबल सिन्क्रोटीज लिमिटेड (जिसे एसएमसी कहा जाता है) का नियम भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा किया जाता है और इसे ब्रोकिंग व्यवसाय, डिपॉजिटरी सेवाएं और संबंधित सेवाओं करने का लाइसेंस प्राप्त है। एसएमसी ग्लोबल सिन्क्रोटीज लिमिटेड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, एमएस्&आई (मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड) का रजिस्टर्ड सदस्य है और एम/एस एसएमसी कॉम्प्लेक्स नेशनल कॉर्पोरेट और डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड और मल्टी कॉर्पोरेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया और भारत के अन्य कॉर्पोरेट एक्सचेंजों का रजिस्टर्ड सदस्य है। इसकी सहयोगी एसएमसीएक्स स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड को सदस्य है। एसएमसी सीडीडीएसएल (CDSL) और एनएसडीएल (NSDL) के साथ डिपॉजिटरी भागीदार के रूप में भी रजिस्टर्ड है। एसएमसी को अन्य एसोसिएट सेवा और भारतीय रिजर्व बैंक के साथ मंचेंट बैंकर, पोर्टफोलियो मैनेजर के रूप में रजिस्टर्ड है। यह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में एएफएफआई (AMFI) में भी रजिस्टर्ड है।

एसएमसी ग्लोबल सिन्क्रोटीज लिमिटेड सेबी (रिसेच एनालिस्ट) रेगुलेशन 2014 के तहत रिसेच एनालिस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन संख्या INH100001849 के साथ रजिस्टर्ड संस्था है। एसएमसी ग्लोबल सिन्क्रोटीज लिमिटेड या इसके सहयोगियों को सेबी द्वारा अन्य किसी रेगुलेटरी एथारिटी द्वारा सिन्क्रोटीज मार्केट/कॉर्पोरेट मार्केट में कारोबार के लिए प्रतिबंधित/निलंबित नहीं किया गया है। रिपोर्ट में रिसेच एनालिस्टों द्वारा व्यक्त की गई राय केवल सार्वजनिक रूप से प्राप्त सूचनाओं/इंटरनेट आंकड़ों/अन्य विश्वसनीय स्रोतों, जिन्हें सत्य माना जाता है, पर आधारित है। एसएमसी रिपोर्ट में व्यक्त राय या सामग्री को सुद्धता को लेकर कोई आश्वासन नहीं देता है और निवेशकों को सलाह दी जाती है कि निवेश के लिए कोई भी निर्णय करने से पहले बाजार को परिस्थितियों/जोखिमों का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन करें। रिसेच एनालिस्ट, जिन्होंने इस रिपोर्ट को तैयार किया है, एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि इस रिपोर्ट में किसी कॉर्पोरेट के संदर्भ में व्यक्त किया गया विचार/राय उनके निजी स्वतंत्र विचार/राय है।

दिसक्लेमर: यह रिसेच रिपोर्ट अधिकृत प्राप्तकर्ता को व्यक्तिगत सूचना के लिए है और इसका निवेशक को किसी निवेश, विधिक एवं कर संबंधी परामर्श से संबंध नहीं है। यह केवल प्राइवेट सिक्यूरिटीज एवं उपयोग के लिए है। यह रिपोर्ट विश्वस्त सूचनाओं पर आधारित है लेकिन यह पूरी तरह सही और पूर्ण है, ऐसा जरूरी नहीं और इस पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। रिपोर्ट के कन्टेन्ट के आधार पर कोई कार्य नहीं किया जा सकता है। इस रिपोर्ट को एसएमसी से लिखित आज्ञा के बिना किसी भी रूप में नकल एवं किसी भी अन्य व्यक्ति को पुनः वितरण नहीं किया जाना चाहिए। इस सामग्री का कन्टेन्ट सामान्य है और यह न तो पूरी तरह से व्यापक है और न विस्तृत है। इस रिपोर्ट के आधार पर उठाये गये किसी कदम से होने वाली क्षति या नुकसान के लिए न तो एसएमसी और न इसका कोई संबंधी, सहायक, प्रतिनिधि, डॉपरिक्टर या कर्मचारी को उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए। यह कोई व्यक्तिगत अनुमोदन नहीं करता या किसी खास निवेश उद्देश्य, वित्तीय स्थिति या किसी व्यक्तिगत ग्राहक या कॉर्पोरेट या सत्ता को जरूरतों को लेकर नहीं चलता है। सभी निवेश जोखिमपूर्ण होते हैं एवं पिछला प्रदर्शन भविष्य के किसी प्रदर्शन को गारंटी नहीं देता है। निवेश को वैल्यू और उससे प्राप्त आमदनी एक निश्चित समय में उपलब्ध कुछ बढ़े एवं सूक्ष्म कारकों के बदलाव पर निर्भर कर सकती है। निवेश का निर्णय लेते समय किसी भी व्यक्ति को अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए।

कृपया ध्यान रखें कि हम या हमारा कोई अधिकारी, सहायक, प्रतिनिधि, डॉपरिक्टर या कर्मचारी, जो भी इस रिपोर्ट को बनाने या भेजने में शामिल है उसको (अ) समय-समय पर किसी भी कॉर्पोरेट में, जिनका इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है, खरीद या विक्री, कोई भी पोजिशन हो सकती है और वह इस कॉर्पोरेट को खरीद या विक्री कर सकता है या (ब) साथ ही साथ वह इन कॉर्पोरेटों के किसी भी प्रकार के सौतों में और ब्रोकरेज या अन्य प्रकार के प्रतिकर में अथवा बाजार निर्माण में शामिल हो सकता है, (स) इस रिपोर्ट में दिए गये सुझावों और संबंधित सूचनाओं एवं विचारों के संदर्भ में इनका अपना कोई भी निहित स्वार्थ या विवाद हो सकता है। सभी विवादों का निपटारा अंतिम रूप से दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीन होगा।